

थाना उझानी पुलिस द्वारा मो0सा0, अवैध अस्लाह एवं 1kg 50 ग्राम अफीम सहित 03 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी उझानी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक उझानी के नेतृत्व में थाना उझानी पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चैकिंग अभियान के दौरान वरीवाई के पास से तीन अभियुक्तगण 1. रविन्द्र पुत्र नत्थू सिंह नि0 ग्राम इटऊआ थाना वजीरगंज बदायूँ, 2. सुरजीत पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम इटऊआ थाना वजीरगंज बदायूँ, 3. तालिब पुत्र याशीन नि0 ग्राम मनोना थाना आँबला बरेली को मय 1kg 50 ग्राम अफीम एक मो.सा. TVS स्टार सिटी नं0- UP24AD2790 तथा एक तमंचा 12 बोर दो कारतूस व एक चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 537/22 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम रविन्द्र उपरोक्त तथा मु0अ0सं0 538/22 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम सुरजीत उपरोक्त व मु0अ0सं0 539/22 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम तालिब उपरोक्त व मु0अ0सं0 540/22 धारा 3/25 A ACT बनाम रविन्द्र उपरोक्त व मु0अ0सं0 541/22 धारा 4/25 A ACT बनाम तालिब पंजीकृत किये गये । गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग अफीम कम दामो मे खरीदकर लोगों को अधिक दामों मे बेचकर काफी मोटा मुनाफा कमा लेते है तथा तमंचा कारतूस तथा चाकू को हम अपनी सुरक्षा के लिए रखते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. रविन्द्र पुत्र नत्थू सिंह नि0 ग्राम इटऊआ थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ ।
2. सुरजीत पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम इटऊआ थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ ।
3. तालिब पुत्र याशीन नि0 ग्राम मनोना थाना आँबला जनपद बरेली ।

बरामदगी

1. 1KG 50 ग्राम अफीम
2. एक तमंचा 12 बोर दो कारतूस
3. एक चाकू

4. एक मो.सा. TVS स्टार सिटी नं0- UP24AD 2790

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।